

22-24

Total number of printed pages-7

63/1 (SEM-6) DSE1B/BODRE6026

2024

BODO

Paper : BODRE6026

(Comparative Culture)

Full Marks : 80

Pass Marks : 32

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. थार फिननायखौ सायख' (जायखि जाया मोनद') : 1×6=6

(क) हारिमु सोमजिनायनि गुदिया जाबाय

(i) मैहुर खालामनाय

(ii) दानाय-लुनाय

(iii) आबाद मावनाय

(iv) जिब-जुनात फिसिनाय

(ख) हारिमुखौ बेसादारि आरो बेसादारि नडै मोननै बाहागोयाव बोखावलांदें

- (i) E. B. Tylor
- (ii) Robert Redfield
- (iii) A. W. Green
- (iv) B. Malinowski

(ग) बर'फोरनि 'बाद (बादुवा)' खान्थिया

- (i) मोनथाम
- (ii) मोनब्रे
- (iii) मोनबा
- (iv) मोनद'

(घ) राभाफोरनि 'बायख' फोरबोया

- (i) आबादजों सोमोन्दो गोनां
- (ii) गोथै गारनायजों सोमोन्दो गोनां
- (iii) दानाय-लुनायजों सोमोन्दो गोनां
- (iv) मोदाय-दावदायजों सोमोन्दो गोनां

(ङ) 'आलि आये लगां' फोरबोखौ फालिनाय जायो

- (i) फागुन दाननि सेथि बुधवार
- (ii) फागुन दाननि नैथि बुधवार
- (iii) फागुन दाननि थामथि बुधवार
- (iv) फागुन दाननि त्रैथि बुधवार

(च) 'नद्रां' (सेंग्राफोरनि बैसां न') आ जावाय

- (i) मिसिंफोरनि
- (ii) बर'फोरनि
- (iii) राभाफोरनि
- (iv) डिमाछाफोरनि

(छ) राभाफोरनि फारकान्ति मोसानायाव मा दावनि मुसुखा लायो ?

- (i) गुवा खाथं
- (ii) मानसिलांखार (मासरंगा)
- (iii) खुरूवा
- (iv) दंफां खुरग्रा

(ज) बबे हरियाव फिसाजोया बिमानि दोहोन (सम्पति) मोननाय खान्थि दं?

- (i) डिमाछा
- (ii) राभा
- (iii) मिछिं
- (iv) बर'

(झ) पः आपं (दांगार होनाय जौ) बानायो

- (i) राभाफ्रा
- (ii) डिमाछाफ्रा
- (iii) मिछिंफ्रा
- (iv) बर'फ्रा

(ञ) नल'रा बर'फोरनि

- (i) खोमायाव गानग्रा गहेना
- (ii) गन्थडाव गानग्रा गहेना
- (iii) गोदोनायाव गानग्रा गहेना
- (iv) आखाइयाव गानग्रा गहेना

2. गाहायनि सोंलुफोरनि सुंथावै फिन हो (जायखि जाया मोनवा) :
2×5=10

(क) 'Primitive Culture' बिजावा सोरनि आरो माब्ला ओंखारनायमोन ?

(ख) जायखि-जाया सासे रोंग 'साया होलांनाय हारिमुनि बुंफोरलु (definition) मोनसे लिर।

(ग) दोरोडारि बर'फोरनि न'मा न'खौ मोनवेसे खथाजों लुनाय जायो आरो मा मा ?

(घ) डिमाछा राजा फोलेरनि सोर सानै विदा-फंवाया हिन्दु दोहोरोम आजावजेन्दोंमोन ?

(ङ) मिछिं हिन्जावफोरनि मोननै दोरोडारि गाननाय सिनि मुं लिर।

(च) राभाफोरनि मोननै दोरोडारि गहेनानि मुं लिर।

(छ) बर' हिन्जावफोर खाथवग्रा मोननै खानाय ख'फानि मुं लिर।

3. गाहायनि सोंलुफोरनि फिन हो (जायखि जाया मोनद') :
5×6=30

(क) हारिमुनि जायखि-जाया मोनवा आखुथाइ लिर।

(ख) आमथिसुवा फोरबोनि बागै लिर।

(ग) बर' आरो मिछिंफोरनि गहेनाफोरनि बागै लिर।

(घ) राभा आरो बर' हिन्जावफोरनि गाननाय सि-जोमनि सायाव रूजुथाय लिर।

(ङ) गार्जा फुजानि बागै सावराय।

(च) राभाफोरनि 'हानाध'रा' मोसानायनि सोमोन्दै लिर।

(छ) मिछिंफोरनि 'ऐ-नि: तम' मोसानायनि बागै लिर।

(ज) मिछिंफोरनि न' लुनायनि सोमोन्दै सावराय।

(झ) बर' आरो राभाफोरनि दोरोडारि न'मा न'नि बागै रूजुनानै लिर।

(ञ) मिछिंफोरनि 'पराग' फोरबोनि बागै लिर।

4. जायखि-जाया मोननै सॉलुनि फिन हो : $10 \times 2 = 20$

(क) हारिमुनि बागै बुंफोरलु (definition) जों लोगोसे गुवारै सावराय।

(ख) बर'फोरनि दोरोडारि हाबा 'हाथासुनि'नि सायाव सावरायनानै लिर।

(ग) राभाफोरनि 'गिर्काय' आरो बर'फोरनि 'बैसागु' मोसानाय-मोनसे रूजुथायारि लिर।

(घ) डिमाछाफोरनि 'लद्रां' (Youth dormitory) नि बागै गुवारै सावराय।

5. खेराइ फोरबोनि बागै गुवारै सावराय। 14

एवा

बर', राभा आरो मिछिंफोरनि आबादारि फोरबोफोरनि बागै सावराय।

एवा

बैसागु, बायख' आरो आलि-आये-लृगां फोरबोफोरनि सायाव मोनसे रूजुथायारि लिर।